

अध्याय - 12 | आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः

QUIZ
PART-04

1. धनिक ने भिक्षुक से स्वयं को कैसा न मानने को कहा?

- A. दुर्बलम्
B. धनिकम्
C. बुद्धिमन्तम्
D. परिश्रमी (A)

व्याख्या: धनिक पूछता है—“किमर्थं त्वम् आत्मानं दुर्बलं मन्यसे?”

2. सौभाग्य से मनुष्यों को क्या प्राप्त हुआ है?

- A. प्रभूतं धनम्
B. दीर्घः अवकाशः
C. मानवजन्म
D. भिक्षापात्रम् (C)

व्याख्या: पाठ में मानव जन्म को सौभाग्य से प्राप्त बताया गया है।

3. मानव जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए?

- A. केवल विश्राम
B. भिक्षाटन
C. धन की प्रतीक्षा
D. प्रयत्न (D)

व्याख्या: धनिक कहता है—“अस्य सफलतार्थं प्रयत्नं कुरु।”

4. धनिक की शिक्षा के बाद भिक्षुक ने क्या त्याग दिया?

- A. भोजनम्
B. भिक्षाटनम्
C. ग्रामम्
D. परिश्रमम् (B)

व्याख्या: उस दिन से उसने भीख माँगना छोड़ दिया।

5. भिक्षुक ने धन कैसे अर्जित करना प्रारम्भ किया?

- A. परिश्रमेण
B. दानेन
C. भिक्षया
D. भाग्येन (A)

व्याख्या: उसने मेहनत करके धनार्जन प्रारम्भ किया।

6. “सगौरवं जीवनयापनम्” का अर्थ क्या है?

- A. दुःखपूर्वक जीवन बिताना
B. आलस्यपूर्वक जीवन बिताना
C. दूसरों पर निर्भर रहना
D. सम्मानपूर्वक जीवन बिताना (D)

व्याख्या: परिश्रम से उसने स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीवन जीना आरम्भ किया।

7. श्लोक के अनुसार मनुष्य के शरीर में स्थित महान् शत्रु कौन है?

- A. धनम्
B. उद्यमः
C. आलस्यम्
D. अध्ययनम् (C)

व्याख्या: “आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः।”

8. श्लोक में किसके समान कोई दूसरा बन्धु नहीं बताया गया है?

- A. विश्रामस्य
B. उद्यमस्य
C. आलस्यस्य
D. भिक्षायाः (B)

व्याख्या: “नास्त्युद्यमसमो बन्धुः” अर्थात् उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है।

9. आलस्य के कारण क्या होता है?

- A. कार्य सिद्ध नहीं होता
B. धन स्वतः प्राप्त होता है
C. सम्मान बढ़ता है
D. मनुष्य परिश्रमी बनता है (A)

व्याख्या: भावार्थ में बताया गया है कि आलस्य के कारण कार्य पूरा नहीं होता।

10. “त्यक्त्वा” शब्द का अर्थ क्या है?

- A. प्राप्त करके
B. देखकर
C. त्याग करके
D. बोलकर (C)

व्याख्या: पाठ की शब्दार्थ-सूची में “त्यक्त्वा—त्यागं कृत्वा” दिया गया है।